



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2011/माघ 18, 1932

No. 232]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2011/MAGHA 18, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2011

का.आ. 272(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 140(अ), तारीख 20 जनवरी, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी द्वारा तमिलनाडु राज्य के डिन्डीगुल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 एक्सटेंशन के 2/750 कि.मी. से 37/800 कि.मी. तक के भूखण्ड (डिन्डीगुल-थेनी और कुमुली सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 14 मार्च, 2010 को "दि न्यू इण्डियन एक्सप्रेस" और "डेली थांथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयाजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हर्द्वीगुल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 एक्सटेंशन के 2/750 कि.मी. से 37/800 कि.मी. तक (डिन्डीगुल-शेली और कुमुली सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :

क्र.सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्ति के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	डिन्डीगुल	अत्तूर	वाक्कामपट्टी	60/1 सी 2	निजी	शुष्क	80	पावलराज पुत्र मारिया कंगप्पण
				60/1 ई 1	निजी	शुष्क	30	जोशेप प्रभु पुत्र मारियासंथानम
				60/1 ई 2	निजी	शुष्क	870	1. मारिया कंगप्पण पुत्र मारियासंथानम 2. माकरेट पुत्र अरोकिराज
				60/1 ई 5	निजी	शुष्क	284	1. मारिया कंगप्पण पुत्र मारियासंथानम 2. माकरेट पुत्र अरोकिराज
				60/4	निजी	शुष्क	205	पयास संथानराज पुत्र मारिया कंगप्पण
				60/5	निजी	शुष्क	341	पयास संथानराज पुत्र मारिया कंगप्पण
				60/7	निजी	शुष्क	60	1. अरोकिराज पुत्र सूसई 2. मारी माकिरेट धत्ती अरोकिराज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				68/1ए	निजी	शुष्क	97	1. बालिनबेल्ली पत्नी बेन्ली ईसरीयल 2. एलेक्म राजा पुत्र थारसईस 3. कौविलपिल्लई (अ) गणनाप्रकाशम पुत्र इन्नासी 4. अमालीअरपावम पत्नी (स्व.) अरोकिअम 5. मार्टिन वेससलात पुत्र (स्व.) अरोकिअम 6. सालेथ मारी पुत्री (स्व.) अरोकिअम 7. रोसाली मारी पुत्र (स्व.) अरोकिअम 8. एथोनीमुथु पुत्र (स्व.) अरोकिअम 9. बोस्को अबिराकम पुत्र (स्व.) अरोकिअम 10. जोशपिन सेल्वासी पुत्री (स्व.) अरोकिअम 11. जमेश मनलविता पुत्र (स्व.) अरोकिअम 12. जॉन बिट्टो पुत्र (स्व.) अरोकिअम
				68/1बी	निजी	शुष्क	669	सनशानम पुत्र राजेन्द्रज
				68/2	निजी	शुष्क	314	मर्जी पत्नी बी. अरोकिअम
				69/2डी	निजी	शुष्क	28	एथोनी पुत्र सक्कीमुद
				69/4	निजी	शुष्क	26	मारीजम्मल पत्नी कुलथईराज
				69/5	निजी	शुष्क	19	अरोकिअम पुत्र विसुवासम
				69/6	निजी	शुष्क	13	अरोकिअम पुत्र विसुवासम
				69/7	निजी	शुष्क	18	अरोकिअम पुत्र विसुवासम
				69/8	निजी	शुष्क	54	अरोकिअम पुत्र विसुवासम
				69/9	निजी	शुष्क	180	अरोकिअम पुत्र विसुवासम
				69/11	निजी	शुष्क	158	उवागरामारी पत्नी रथिलम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2134	निजी	शुष्क	2134	1. अमानुल्ला पुत्र मोहमदयागूप 2. उबईदुल्ला पुत्र मोहमदयागूप 3. जयारुल्ला पुत्र मोहमदयागूप
				1279	निजी	शुष्क	1279	1. अलपूश पुत्र सवारीमुथु 2. अरोकईसामी पुत्र सवारीमुथु 3. सेपासनिअन पुत्र सवारीमुथु 4. अमानुल्ला पुत्र मोहमदयागूप 5. उबईदुल्ला पुत्र मोहमदयागूप 6. जयारुल्ला पुत्र मोहमदयागूप
				100	निजी	शुष्क	100	सेपसतिअन पुत्र सवामुथु गोडर
				645	निजी	शुष्क	645	ताजनिशा पत्नी मोहमद ईस्माइल
				540	निजी	शुष्क	540	ताजनिशा पत्नी मोहमद ईस्माइल
				300	निजी	शुष्क	300	ताजनिशा पत्नी मोहमद ईस्माइल
				225	निजी	शुष्क	225	1. वेलनकल्ली पुत्र ईन्नासी 2. ताजनिशा पत्नी मोहमद ईस्माइल
				173	निजी	शुष्क	173	लुथु अम्बर पत्नी मथालईमुथु
				600	निजी	शुष्क	600	1. नल्लाम्मल पत्नी अरुमुगम 2. सथिल कुमार पुत्र अरुमुगम
				550	निजी	शुष्क	550	प्रेमावथी पत्नी पलानीचामा
				450	निजी	शुष्क	450	पलानीचामी पुत्र सामिनाथन
				350	निजी	शुष्क	350	पलानीचामी पुत्र सामिनाथन
				850	निजी	शुष्क	850	राजमणि पुत्र सामिनाथन
				915	निजी	शुष्क	915	अरोकिअम पुत्र सवारिअर
				815	निजी	शुष्क	815	मणिकट्टी माचीमुथु पुत्र पलानीमुथु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				80/7बी	निजी	शुष्क	246	अरुमुगम पुत्र वेलनईचामी सरवई
				80/8	निजी	शुष्क	1580	1. नल्लाम्मल पत्नी अरुमुगम 2. सैथिल कुमार पुत्र अरुमुगम
				80/9	निजी	शुष्क	1161	राजमणि पुत्र सामिनाथन
				80/10	निजी	शुष्क	522	पलानीचामी पुत्र सामिनाथन
				80/11	निजी	शुष्क	400	पलानीचामी पुत्र सामिनाथन
				80/13ए	निजी	शुष्क	600	पेरियासामी पुत्र सामीनाथन
				80/13बी	निजी	शुष्क	104	कट्टारी (अ) अचौमुथु पुत्र पलानीचामी
				80/15ए	निजी	शुष्क	672	लोगनाथन पुत्र मरुथई सरवई
				80/15बी	निजी	शुष्क	24	1. थिल्लईसामी पुत्र अय्यर 2. सुब्रमणि पुत्र अय्यर
				80/17	निजी	शुष्क	300	प्रेमावथी पत्नी पलानीचामी
				80/18	निजी	शुष्क	128	प्रेमावथी पत्नी पलानीचामी
				81/1ए	निजी	शुष्क	900	वल्लादी एथोनी पुत्र सवारीमुथु
				81/1बी	निजी	शुष्क	200	1. रंजिनामारी पत्नी वेलनकन्चई 2. अरोकिसामी पुत्र वेलनकन्ची
				81/2	निजी	शुष्क	237	रेबर्ट पुत्र सवारीमुथु
				94	निजी	शुष्क	172	निर्वगा अधिकारी, गोपाल नरसिम्मा पेरुमल कोविल निलाक्कोट्टई
				104/1ए	निजी	शुष्क	124	अरोकिअम पुत्र सवारीमुथु
				104/1बी	निजी	शुष्क	37	एथोनी पुत्र सवारीमुथु
				104/1डी	निजी	शुष्क	130	सवारीमुथु पुत्र सवारीमुथु
				104/2ए	निजी	शुष्क	42	1. पोन्नल पुत्र कमाक्षीसरवई 2. मुथुकामाक्षी पुत्र कामाक्षीसरवई 3. रेणुगादेवी पत्नी पन्नीरसेल्वम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				104/2क	निजी	शुष्क	68	रेणुगादेवी पत्नी पन्नीरसेत्वम
				104/2ख	निजी	शुष्क	85	मुथुकामाक्षी पुत्र कामाक्षीसरवई
				105/1अ	निजी	शुष्क	214	सूसई मणिकम पुत्र सवारीमुथु
				105/8	निजी	शुष्क	38	पनीर सेत्वम पुत्र दुरईचामी सरवई
				105/9	निजी	शुष्क	40	1. सेसु पुत्र कन्नूर विसुवासम 2. गारो पत्नी सेसु 3. सेसुराज पुत्र सेसु
				105/10	निजी	शुष्क	12	अवयस्क दिनेश कुमार (गार्जियन पुत्र गुणासीलन) पुत्र गुणासीलन
				105/11	निजी	शुष्क	13	राजचन्द्रन सेकर (अ) राजसेकर पुत्र गुणासीलन
				118/1अ	निजी	शुष्क	124	1. सेसु पत्नी जेनोवामारी 2. सवारीमुथु पुत्र ईन्नासी 3. साथियागु. 4. ईरुथायम, 5. राबिअल वाय्यर
				118/2	निजी	शुष्क	430	दि सोसाइटी अफ दि फादर्स शाफ होलीकोस
				118/3	निजी	शुष्क	196	दि सोसाइटी अफ दि फादर्स शाफ होलीकोस
				119	निजी	शुष्क	164	1. अरोकीमारी पत्नी कुलथईराज 2. सागयामारी पुत्र कुलथईराज 3. सेसुराज पुत्र कुलथईराज 4. सवारिअर पुत्र कुलथईराज 5. मथालईमारी पुत्र कुलथईराज 6. एथोनीअरमल पुत्र कुलथईराज
				119/2अ	निजी	शुष्क	115	जेनोवामारी पत्नी अफ
				119/2ब	निजी	शुष्क	163	फेसिम पुत्र विसुवासम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				119/2जी	निजी	शुष्क	107	1. अरोकीमारी पत्नी कुलनथईराज 2. सागयामारी पुत्री कुलनथईराज 3. सेसुराज पुत्र कुलनथईराज 4. सवारिअर पुत्र कुलनथईराज 5. मथालईमारी पुत्री कुलनथईराज 6. एथोनीअम्मल पुत्री कुलनथईराज
				119/4ए	निजी	शुष्क	100	1. अरोकीमारी पत्नी कुलनथईराज 2. सागयामारी पुत्री कुलनथईराज 3. सेसुराज पुत्र कुलनथईराज 4. सवारिअर पुत्र कुलनथईराज 5. मथालईमारी पुत्री कुलनथईराज 6. एथोनीअम्मल पुत्री कुलनथईराज
				119/5ए	निजी	शुष्क	268	इन्नासी पुत्र अरोकिअम
				119/6ए	निजी	शुष्क	123	जेनोवामारी पत्नी सेसु
				119/7	निजी	शुष्क	166	1. अरोकीमारी पत्नी कुलनथईराज 2. सागयामारी पुत्री कुलनथईराज 3. सेसुराज पुत्र कुलनथईराज 4. सवारिअर पुत्र कुलनथईराज 5. मथालईमारी पुत्री कुलनथईराज 6. एथोनीअम्मल पुत्री कुलनथईराज
				178/4	सरकारी	नाथम मकान स्थल	5	पीटर पुत्र गणना अरोकिअम
				178/5	सरकारी	नाथम मकान स्थल	15	1. एलपोश पत्नी सेवियर 2. पाथिमा मारी पत्नी पीटर
				178/11	सरकारी	नाथम मकान स्थल	73	सुब्बन पुत्र अलगल
				178/12	सरकारी	नाथम मकान स्थल	44	पप्पाथई पत्नी मुरुगन
				178/13	सरकारी	नाथम मकान स्थल	40	जोसेफराज पत्नी सेत्वरज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				178/14	सरकारी	नाथम मकान स्थल	26	1. मारिअम्मल पत्नी सुब्रमणि 2. चिन्नावकालई पुत्र सोलई
				178/16	सरकारी	नाथम मकान स्थल	29	सुब्रमणि पुत्र मुरुगंडी
				178/17	सरकारी	नाथम मकान स्थल	27	1. सुब्रमणि पुत्र मुरुगंडी 2. पोतरामु पुत्र अलगार
				178/18	सरकारी	नाथम मकान स्थल	27	पोतरामु पुत्र अलगार
				178/19	सरकारी	नाथम रिक्त स्थान	44	पालसामी पुत्र पेरुमल सरवई
				178/20	सरकारी	नाथम रिक्त स्थान	10	टी. रमण पुत्र थलामन
				186/16	सरकारी	नाथम मकान स्थल	8	ईन्नासी पुत्र अरुलप्पन
				186/17	सरकारी	नाथम मकान स्थल	8	सूसई मणिकम पुत्र मथालईमुथु
				186/18	सरकारी	नाथम मकान स्थल	9	जोतिअम्मल पत्नी कारमेगम चेट्टिअर
				186/48	सरकारी	नाथम रिक्त स्थान	40	के. करुप्पईया पुत्र काथनसरवई
				186/49	सरकारी	नाथम मकान स्थल	21	वेल्लईचामी पुत्र कामाक्षी
				186/56	सरकारी	नाथम मकान स्थल	76	पलानीचामी पुत्र दुरईचामी
				186/58	सरकारी	नाथम मकान स्थल	41	1. पोन्नन पुत्र पलानीचामी 2. दुरईराज पुत्र पलानीचामी 3. चिन्नावकालई पुत्र पलानीचामी
				186/60	सरकारी	नाथम मकान स्थल	5	धनुषकोडी पुत्र मुथुकरुप्पन
				138/7सी3	निजी	शुष्क	252	1. मारीया कनगप्पन पुत्र मारीयासनथानम 2. आनी सेवी मेटिल्डा पत्नी राजकुमार
				138/7सी4ए	निजी	शुष्क	380	1. यागप्पन पुत्र मारीयासनथानम 2. राबिअल पुत्र अमिरथम
				138/7सी4बी	निजी	शुष्क	264	मेसई सेसु पुत्र अरोकियासामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				138/7सी5	निजी	शुष्क	400	सेसुविनबापी पत्नी पालजोनसन
				138/24बी	निजी	शुष्क	37	1. पाथिमामारी पत्नी पीटर 2. अलफोंशा पत्नी जेविअर
				138/25ए	निजी	शुष्क	5	1. अमिरथम, 2. अरोकिअम कुलईनथईराज पत्नी मथालईमुथु 3. राबिअल पुत्र काबरियेल 4.
				138/25बी	निजी	शुष्क	15	जोसेफ पुत्र अरोकिअम
				138/25सी	निजी	शुष्क	6	मथालईमारी पत्नी यागप्पन
				138/25डी	निजी	शुष्क	2	गणनामुथु पुत्र मुथु
				138/25ई	निजी	शुष्क	11	1. अमिरथम, 2. अरोकिअम कुलईनथईराज पत्नी मथालईमुथु 3. राबिअल पुत्र काबरियेल 4.
				138/25एफ	निजी	शुष्क	106	1. सिमियन पुत्र मथालईमुथु 2. मारियापुष्पम पुत्र मथालईमुथु 3. मारियाशेसाती पुत्र मथालईमुथु 4. मारिपाकिअम पत्नी मथालईमुथु
				138/26ए	निजी	शुष्क	1262	1. अरोकिदास पुत्र सेल्वराज 2. कुलंथईराज पुत्र मथालईमुथु 3. यागप्पन पुत्र मारियानम 4. जॉशप्पिन स्टेल्वा पत्नी पाईलसनथनराज
				138/26बी	निजी	शुष्क	160	पाउलराज पुत्र वियागुलम
				138/29	निजी	शुष्क	172	अरोकिमारी पत्नी अरोकिसामी
				138/34	निजी	शुष्क	300	जोसेफ प्रभु पुत्र मारी सनथानम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				138/47	निजी	शुष्क	300	पयास सथानराज पुत्र मारिया कंगप्पण
				138/48	निजी	शुष्क	350	पावुलराज पुत्र मारिया कंगप्पण

[फा. सं. भारास्रा-एच.क्यू./11013/2011-एलए/नोटिफ/पीआईयू-मदुरई]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th February, 2011

S.O. 272(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 140 (E), dated the 20th January, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land, specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four – laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 45 Extn., on the stretch of land from Km 2/750 to Km 37/800 (Dindigul-Theni & Kumuli Section) in District Dindigul in the State of Tamil Nadu ;

And whereas the substance of the said notification has been published in 'The New Indian Express' and 'Daily Thanthi', both dated the 14th March, 2010, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority :

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 2/750 to Km. 37/800 (Dindigul – Theni & Kumuli section) on the National Highway No. 45 Extn., in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dindigul	Athoor	Vakkampatti	60/1D2	Private	Dry	80	Pavulraj S/o.Maria Kanagappan
				60/1E1	Private	Dry	30	Joseph Prabhu S/o.Mariasanthanam
				60/1E2	Private	Dry	870	1.Maria Kanagappan S/o.Mariasanthanam 2.Markret S/o.Arokiaraj
				60/1F	Private	Dry	284	1.Maria Kanagappan S/o.Mariasanthanam 2.Markret S/o.Arokiaraj
				60/4	Private	Dry	205	Payas Santhanaraj S/o.Maria Kanagappan
				60/5	Private	Dry	341	Payas Santhanaraj S/o.Maria Kanagappan
				60/7	Private	Dry	60	1.Arokiaraj S/o.Soosai 2.Mary Markiret W/o.Arokiaraj
				68/1A	Private	Dry	97	1.Baalinbenni W/o. Benni Isreal 2.Alex Raja S/o.Tharsis 3.Kovilpillai (a) Gnanaprakasam S/o.Innasi 4.Amalorpavam W/o. (Late) Arokiam 5.Martin Vensaslal S/o. (Late) Arokiam 6.Saleth mary D/o. (Late) Arokiam 7.Rosaali mary D/o. (Late) Arokiam 8.Anthonymuthu S/o. (Late) Arokiam 9.Bosgo Abirakam S/o. (Late) Arokiam 10.Joshpin Selvarani D/o. (Late) Arokiam 11.Jemsh Mentonsha S/o. (Late) Arokiam 12.John Britto S/o. (Late) Arokiam

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				68/1B	Private	Dry	669	Santhanam S/o.Rajendran
				68/2	Private	Dry	314	Mercy W/o. V.Arokiam
				69/2D	Private	Dry	28	Anthony S/o.Savarimuthu
				69/4	Private	Dry	26	Maryammal W/o.Kulanthairaj
				69/5	Private	Dry	19	Arokiam S/o.Visuvasam
				69/6	Private	Dry	13	Arokiam S/o.Visuvasam
				69/7	Private	Dry	18	Arokiam S/o.Visuvasam
				69/8	Private	Dry	54	Arokiam S/o.Visuvasam
				69/9	Private	Dry	180	Arokiam S/o.Visuvasam
				69/11	Private	Dry	158	Ubagaramary W/o.Rathinam
				71	Private	Dry	2134	1.Amaanulla S/o.Mohamedyagoop 2.Ubaidulla S/o.Mohamedyagoop 3.Jabarulla S/o.Mohamedyagoop
				73/1	Private	Dry	1279	1.Alponsh S/o.Savarimuthu 2.Arokiasamy S/o.Savarimuthu 3.Sepastian S/o.Savarimuthu 4. Amaanulla S/o.Mohamedyagoop 5. Ubaidulla S/o.Mohamedyagoop 6. Jabarulla S/o.Mohamedyagoop
				73/2	Private	Dry	100	Sepastian S/o.Savamuthu Goundar
				77/1A	Private	Dry	645	Tajnisha W/o.Mohamed Ismayil
				77/1B	Private	Dry	540	Tajnisha W/o.Mohamed Ismayil

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				77/2A	Private	Dry	300	Tajnisha W/o.Mohamed Ismayil
				77/2B	Private	Dry	225	1.Velankanni S/o.Innasi 2. Tajnisha W/o.Mohamed Ismayil
				77/3A	Private	Dry	173	Lurthu Ammal W/o.Mathalaimuthu
				80/1	Private	Dry	600	1.Nallammal W/o.Arumugam 2.Senthil Kumar S/o.Arumugam
				80/2	Private	Dry	550	Premavathi W/o.Palanichamy
				80/3	Private	Dry	450	Palanichamy S/o.Saminathan
				80/4	Private	Dry	350	Palanichamy S/o.Saminathan
				80/5	Private	Dry	850	Rajamani S/o.Saminathan
				80/6	Private	Dry	915	Arokiam S/o.Savariar
				80/7A	Private	Dry	815	Manikatti Nachimuthu S/o.Palanimuthu
				80/7B	Private	Dry	246	Arumugam S/o.Vellaichamy Servai
				80/8	Private	Dry	1580	1.Nallammal W/o.Arumugam 2.Senthil Kumar S/o.Arumugam
				80/9	Private	Dry	1161	Rajamani S/o.Saminathan
				80/10	Private	Dry	522	Palanichamy S/o.Saminathan
				80/11	Private	Dry	400	Palanichamy S/o.Saminathan
				80/13A	Private	Dry	600	Periyasamy S/o.Saminathan
				80/13B	Private	Dry	104	Kattari (a) Aachimuthu S/o.Palanichamy
				80/15A	Private	Dry	672	Loganathan S/o.Maruthai Servai
				80/15B	Private	Dry	24	1.Thillaisamy S/o.Ayyar 2.Subramani S/o.Ayyar
				80/17	Private	Dry	300	Premavathi W/o.Palanichamy
				80/18	Private	Dry	128	Premavathi W/o.Palanichamy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				81/1A	Private	Dry	900	Valladi Anthony S/o.Savarimuthu
				81/1B	Private	Dry	200	1. Reginamary W/o.Velankanni 2.Arokiasamy S/o. Velankanni
				81/2	Private	Dry	237	Rabert S/o.Savarimuthu
				94	Private	Dry	172	Nirvaga Athikari, Gopala Narasimma Perumal Kovil, Nilakkottai.
				104/1A	Private	Dry	124	Arokiam S/o.Savarimuthu
				104/1B	Private	Dry	37	Anthony S/o. Savarimuthu
				104/1D	Private	Dry	130	Savarimuthu S/o. Savarimuthu
				104/2A	Private	Dry	42	1.Ponnan S/o.Kamatchiservai 2.Muthukamatchi S/o. Kamatchiservai 3.Renugadevi W/o.Panneerselvam
				104/2B	Private	Dry	68	Renugadevi W/o.Panneerselvam
				104/2C	Private	Dry	85	Muthukamatchi S/o. Kamatchiservai
				105/1A1	Private	Dry	214	Soosai Manickam S/o.Savarimuthu
				105/8	Private	Dry	38	Panneer Selvam S/o.Duraichamy Servai
				105/9	Private	Dry	40	1.Sesu S/o.Konoor Visuvasam 2.Mary W/o.Sesu 3.Sesuraj S/o.Sesu
				105/10	Private	Dry	12	Minor Dineshkumar (Gardian S/o.Gunaseelan) S/o.Gunaseelan
				105/11	Private	Dry	13	Rajachandra Sekar (a) Rajasekar S/o.Gunaseelan
				118/1A	Private	Dry	124	1. Sesu W/o. Jenovamary 2.Savarimuthu S/o.Innasi 3.Santhiyagu, 4.Iruthayam, 5.Rabeal Vathiyar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				118/2	Private	Dry	430	The Society of the father's of Holycross
				118/7	Private	Dry	196	The Society of the father's of Holycross
				119/1	Private	Dry	164	1.Arokiamary W/o.Kulanthairaj 2.Sagayamary D/o. Kulanthairaj 3.Sesuraj S/o. Kulanthairaj 4.Savariar S/o. Kulanthairaj 5.Mathalaimary d/o. Kulanthairaj 6.Anthoniammal D/o. Kulanthairaj
				119/2B	Private	Dry	115	Jenovamary W/o.Sesu
				119/2F	Private	Dry	163	Francis S/o.Visuvasam
				119/2G	Private	Dry	107	1.Arokiamary W/o.Kulanthairaj 2.Sagayamary D/o. Kulanthairaj 3.Sesuraj S/o. Kulanthairaj 4.Savariar S/o. Kulanthairaj 5.Mathalaimary d/o. Kulanthairaj 6.Anthoniammal D/o. Kulanthairaj
				119/4A	Private	Dry	100	1.Arokiamary W/o.Kulanthairaj 2.Sagayamary D/o. Kulanthairaj 3.Sesuraj S/o. Kulanthairaj 4.Savariar S/o. Kulanthairaj 5.Mathalaimary D/o. Kulanthairaj 6.Anthoniammal D/o. Kulanthairaj
				119/5A	Private	Dry	268	Innasi S/o. Arokiam
				119/6A	Private	Dry	123	Jenovamary W/o.Sesu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				119-7	Private	Dry	166	1. Arokiamary W/o. Kulanthairaj 2. Sagayamary D/o. Kulanthairaj 3. Sesuraj S/o. Kulanthairaj 4. Savariar S/o. Kulanthairaj 5. Mathalaimary d/o. Kulanthairaj 6. Anthoniammal D/o. Kulanthairaj
				178-4	Govt	Natham House site	5	Peeter S/o. Gnana Arokiam
				178-5	Govt	Natham House site	15	1. Alponsh W/o. Seviyar 2. Pathima Mary W/o. Peetar
				178-11	Govt	Natham House site	73	Subban S/o. Alagan
				178-12	Govt	Natham House site	44	Pappathi W/o. Murugan
				178-13	Govt	Natham House site	40	Josephraj W/o. Selvaraj
				178-14	Govt	Natham House site	26	1. Mariammal W/o. Subramani 2. Chinnakkalai S/o. Solai
				178-16	Govt	Natham House site	29	Subramani S/o. Murugandi
				178-17	Govt	Natham House site	27	1. Subramani S/o. Murugandi 2. Ponramu S/o. Alagar
				178-18	Govt	Natham House site	27	Ponramu S/o. Alagar
				178-19	Govt	Natham Vacant site	44	Paalsamy S/o. Perumal Servai
				178-20	Govt	Natham Vacant site	10	T. Raman S/o. Thalaman
				186-16	Govt	Natham House site	8	Innasi S/o. Arulappan
				186-17	Govt	Natham House site	8	Soosai Manickam S/o. Mathalaimuthu
				186-18	Govt	Natham House site	9	Jothiammal W/o. Kaarmegam Chettri
				186-48	Govt	Natham Vacant site	40	K. Karuppaia S/o. Kaathaanservai
				186-49	Govt	Natham House site	21	Vellaichamy S/o. Kamatchi
				186-56	Govt	Natham House site	76	Palanichamy S/o. Duraichamy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				186/58	Govt	Natham House site	41	1.Ponnan S/o.Palanichamy 2.Duraiaraj S/o.Palanichamy 3.Chinnakkalar S/o.Palanichamy
				186/60	Govt	Natham House site	5	Dhanushkodi S/o.Muthukaruppan
				138/7C3	Private	Dry	252	1.Maria Kanagappan S/o.Mariasanthanam 2.Aany Sobi Metilda W/o.Rajkumar
				138/7C4A	Private	Dry	380	1.Yagappan S/o.Mariasanthanam 2.Rabeal S/o.Amirtham
				138/7C4B	Private	Dry	264	Messia Sesu S/o.Arokiasamy
				138/7C5	Private	Dry	400	Sesuvimbapi W/o.Paljohnson
				138/24B	Private	Dry	37	1.Pathimamary W/o.Peetar 2.Alphonsha W/o.Xavier
				138/25A	Private	Dry	5	1.Amirtham, 2.Arokiam 3.Kulainthairaj W/o.Mathalaimuthu 4.Rabeal S/o.Kabariyeal
				138/25B	Private	Dry	15	Joseph S/o.Arokiam
				138/25C	Private	Dry	6	Mathalaimary W/o.Yagappan
				138/25D	Private	Dry	2	Gnanamuthu S/o.Muthu
				138/25E	Private	Dry	11	1.Amirtham, 2.Arokiam 3.Kulainthairaj W/o.Mathalaimuthu 4.Rabeal S/o.Kabariyeal
				138/25F	Private	Dry	106	1.Simiyon S/o.Mathalaimuthu 2.Mariapushpam S/o.Mathalaimuthu 3.Mariasesali S/o.Mathalaimuthu 4.Mariapakiam W/o.Mathalaimuthu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				138/26A	Private	Dry	1262	1.Arokiadass S/o. Selvaraj 2.Kulanthairaj S/o.Mathalaimuthu 3.Yagappan S/o.Mariathanam 4.Joshappin Stella W/o.Payilsanthanaraj
				138/26B	Private	Dry	160	Paulraj S/o.Viyagulam
				138/29	Private	Dry	172	Arokiamary W/o.Arokiasamy
				138/34	Private	Dry	300	Joseph Prabhu S/o. Maria Santhanam
				138/47	Private	Dry	300	Pyas Santhanaraj S/o. Maria Kanagappan
				138/48	Private	Dry	350	Pavulraj S/o. Maria Kanagappan

[E.No. NHAI-HQ/11013/2011-LA/NotiE/PIU -Madurai]

S.NARENDRA, Director